

NATIONAL INSTITUTE OF HYDROLOGY
(Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
Jalvigyan Bhawan, Roorkee – 247 667 (Uttarakhand)

Advertisement Notice

Advertisement No. Project/PDS-NHP-15/2018-NIH (Admn)

Dated: 07.05.2019

Subject: Advertisement for the selection of Project Staff (on contract basis) through Walk-in-Interview for the following projects.

Sl. No.	Project/Sub-Project Title	Designation	No. of Post	Duration	Qualification	Emoluments per month	Date, time & place of interview
1.	“Innovation Centre for Eco-prudent Wastewater Solutions (IC-ECOWS)” DST Funded	Senior Program Officer (SPO)	01	5 Years	Senior Program Officer (SPO) Essential: Ph.D in Engg./ Sciences OR PG in Engg./ Sciences (in Environmental Engg./ Environmental Science/ Chemistry) With minimum 5 years of field experience in the field of wastewater treatment & management.	Rs.55,000/-p.m. (consolidated)	Dated 23.05.2019 11.00AM at NIH, Roorkee
		Research Associate (RA)	01	5 Years	Research Associate (R.A-Level-1) Essential: Ph.D degree in Engg./Sciences OR PG in Engg./Sciences (in Environmental Engg./ Environmental Science/ Chemistry) having 3 years of research experience with atleast one research paper in SCI Journal/ reputed journal. Desirable: Persons with higher/ additional qualifications, research experience, and published papers in the field of wastewater treatment would be preferred.	Rs.47,000/-p.m. + HRA (as applicable)	
		Junior Research Fellow	01	5 Years	Junior Research Fellow (JRF) Essential: Post Graduate Degree in basic sciences OR Graduate/ Post Graduate Degree in Professional Course selected through a process described through any one of the following: a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc. in Environmental Engg/ Environmental Science/ Chemistry Desirable: Persons with research experience and published papers in the field of wastewater treatment would be preferred.	Rs.31,000/-p.m. + HRA (as applicable)	
2.	“Centre for Ecology & Hydrology, (CEH UK)” CEH Sponsored	Research Associate (R.A)	01	01 Years	Research Associate (R.A) Essential: Doctorate (Ph.D) in Engineering/ Sciences OR having 3 years of research, teaching & design and development experience after M.E./M. Tech. (in Hydrology, Soil & Water Conservation Engg., Meteorology, Agro-Meteorology, Atmospheric Sciences, Forest Hydrology, Geo-informatics) with at least one research paper in Science Citation Indexed (SCI) journal. Desirable: Experience of working in the above research areas.	Rs.47,000/-p.m. + HRA (as applicable)	Dated 23.05.2019 11.00AM at NIH, Roorkee
3.	“Environmental Flow Assessment for Yamuna River from Hathnikund Barrage to Okhla Barrage” NMCG Funded	Research Associate (RA)	01	12 months	Research Associate (R.A) Essential: Ph.D. degree in Civil Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Natural Resources Management OR M.E./M. Tech. in Civil Engg./ Water Resources/ Hydrology/Environmental Engg. having 3 years of research experience, with a least one research paper in Science Citation Indexed (SCI) journal Nature of Work: Field surveys & investigations, hydrological and hydrodynamic	Rs.47,000/-p.m. + HRA (as applicable)	Dated 23.05.2019 11.00AM at NIH, Roorkee

					modelling for upper Yamuna basin. Desirable: Preference will be given to candidates having experience of carrying out Hydrological Modelling using SWAT/HECHMS and Hydrodynamic modelling using HEC-RAS 2D.		
4.	“Enhancing Food and Water Security in Arid Region through Improved Understanding of Quantity, Quality and Management of Blue, Green and Grey Water” DST Funded	Senior Research Fellow (SRF)	01	5 Years	Senior Research Fellow (SRF) Essential: Post Graduate Degree (in Earth Science/ Applied Geology/Environmental Science) OR M.E. /M. Tech. (in Civil Engg./ Water Resources/ Hydrology/Environmental Engg./ Agricultural Engg./ Soil & Water Conservation Engg.) selected through a process described through any one of the following: a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc. AND Two years of research experience Nature of Work: Field experiments & investigations, distributed modeling for conjunctive use of water resources in Rajasthan Desirable: Preference will be given to candidates having experience of carrying out distributed groundwater modelling using MODFLOW and work on GIS.	Rs.35,000/-p.m. + HRA (as applicable) (Only those registered for Ph.D.)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
		Junior Research Fellow(JRF)	01	5 Years	Junior Research Fellow (JRF) Essential: Post Graduate Degree (in Earth Science/ Applied Geology/Environmental Science) OR M.E. /M. Tech. (in Civil Engg./ Water Resources/ Hydrology/Environmental Engg./ Agricultural Engg./ Soil & Water Conservation Engg.) selected through a process described through any one of the following: a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc. Nature of Work: Field experiments & investigations, distributed modeling for conjunctive use of water resources in Rajasthan Desirable: Preference will be given to candidates having experience of carrying out distributed groundwater modelling using MODFLOW and work on GIS.	Rs.31,000/-p.m. + HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
5.	“Assessment of seasonal variations in Hydrology and Cryosphere of Upper Ganga Basin using GRACE Data” DST Supported	Junior Research Fellow	01	3 Years	Junior Research Fellow (JRF) Essential: 1 st class Graduate Degree in Professional Courses (B.E./B.Tech.) (in Civil Agri. Engg./ Environmental Science) or equivalent relevant qualification OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.) (in Water Resources Hydrology/RemoteSensing/GIS/Geoinformatic/ IT/Agricultural Engg. OR 1 st class Post Graduate Degree (in Basic Science (M.Sc.) in Hydrology/ Water resources/ Geoinformatics/ Meteorology/ Environmental Sciences/ Earth Sciences) or relevant equivalent qualification selected through a process described through any one of the following: a. Scholars who are selected through	Rs.31,000/-p.m. + HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee

					<p>National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc.</p> <p>Desirable: Experience in Remote Sensing and GIS and experience in handling GRACE data.</p>		
6.	<p>NMSHE Sub Project entitled "Glacial Lakes & Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) in Western Himalayan Region"</p> <p>DST Funded</p>	Junior Research Fellow	01	Upto 12 Jan.2021	<p>Junior Research Fellow (JRF)</p> <p>Essential: Post Graduate Degree in basic sciences (Maths/ Physics/ Geology/ Earth Sciences) OR Graduate Degree in Professional Course (B.E./B.Tech.) (in Civil/ Agriculture/ Computer Engg./ Information Technology/ Agricultural Engg.) OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.) (in Water Resources/Hydrology/ Remote sensing/GIS/ Geoinformatics/IT/ Agricultural Engg.) selected through a process described through any one of the following:</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc.</p> <p>Desirable: Persons with higher/additional qualifications, research experience, and published papers in relevant field would be preferred.</p>	Rs.31,000/-p.m. + HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
7.	<p>Integrated Management of Water Resources for Quantity and Quality in Upper Yamuna Basin upto Delhi"</p> <p>CEHM(NHP)</p>	Senior Research Fellow	02	03 Years	<p>Senior Research Fellow</p> <p>Essential: Post Graduate Degree (in Earth Science/ Applied Geology/ Environmental Science/ Chemistry/ Environmental Resource Management) OR M.E./M. Tech (in Civil Engg./Water Resources/ Hydrology/ Environmental Engg./ Agricultural Engg./ Soil & Water Conservation Engg.) selected through a process described through any one of the following:</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p>AND</p> <p>Two years of research experience</p> <p>Nature of Work: Field investigations, lab experiments, data processing and support in hydrological modeling.</p> <p>Desirable: Preference will be given to candidates having experience of hydrological modeling using softwares such as SWAT, MODFLOW, HYDRUS etc., work on GIS, statistical analysis, climate change impact analysis and/ or water quality analyses, sample preparation, field surveys etc.</p>	Rs.35,000/-p.m. +HRA (as applicable) (Only those registered for Ph.D.)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee

		Junior Research Fellow	01	03 Years	<p>Junior Research Fellow</p> <p>Essential: Post Graduate Degree (in Earth Science/ Applied Geology/ Environmental Science/ Chemistry) OR M.E./ M. Tech. (in Civil Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Environmental Engg./ Agricultural Engg./ Soil & Water Conservation Engg.) selected through a process described through any one of the following:</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p>Nature of Work: Field investigations, lab experiments, data processing and support in hydrological modeling.</p> <p>Preference will be given to candidates having experience of work on GIS, statistical analysis, hydrological modeling, and/ or water quality analyses, sample preparation etc.</p>	Rs.31,000/-p.m. +HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
8.	<p>“Hydrological Modelling for Evaluation of Return Flow and Irrigation Planning for Optimal Utilization of Water Resource in the Command of Sanjay Sagar Project in Madhya Pradesh (Return Flow-MP)”</p> <p>No: NIH-28_2017_69</p> <p>Under NHP</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	Junior Research Fellow	01	04 Years	<p>Junior Research Fellow (JRF)</p> <p>Essential: Post Graduate Degree in Basic Science OR Graduate Degree in Professional Course (B.E./B.Tech.)(in Civil Engg./ Agricultural Engg./Environmental Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Remote Sensing and GIS/ Geosciences/ Geology/ Geoinformatics, Computer Science/IT) OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.)(in Civil Engg./ Agricultural Engg./Environmental Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Remote Sensing and GIS/ Geosciences/Geology/Geoinformatics/Computer Science/IT) selected through a process described through any one of the following:</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p>	Rs.31,000/-p.m. +HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
9.	<p>“Development of Decision Tool for Efficient Utilization of Water Resource in Parwati Canal & Dholpur Piped irrigation Project of Rajasthan (Irrigation Management-Rajasthan” No.: RAJ-4_2017_57</p> <p>Under NHP</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	Junior Research Fellow	01	2.5 Years	<p>Junior Research Fellow (JRF)</p> <p>Essential: Post Graduate Degree in Basic Science OR Graduate Degree in Professional Course (B.E./B.Tech.)(in Civil Engg./ Agricultural Engg./ Environmental Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Remote Sensing and GIS/ Geosciences/ Geology/ Geoinformatics/Computer Science/IT) OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.) (in Civil Engg./ Agricultural Engg./ Environmental Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Remote Sensing and GIS/ Geosciences/Geology/Geoinformatics/Computer Science/IT) selected through a process described through any one of the following:</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p>	Rs.31,000/-p.m.+HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee

10.	<p>“Impact Assessment of the Upcoming Irrigation Projects and Climate Change on the Droughts and Desertification Scenario for Chambal Basin in Western Madhya Pradesh”</p> <p>NHP Sponsored</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	Junior Research Fellow	01	03 Years	<p>Junior Research Fellow (JRF)</p> <p>Essential: Post Graduate Degree in Basic Science OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.) (in Civil Engg./ Agricultural Engg./ Environmental Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Remote Sensing and GIS/ Geomatics/Geoinformatics/ Earth Sciences/ Environmental Sciences) selected through a process described through any one of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc. <p>Desirable: Persons with higher/additional qualifications and execution of research projects would be preferred.</p>	Rs.31,000/- +HRA (as admissible)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
11.	<p>“Integrated Assessment of the Impacts of Climate Change on the Hydrology of Narmada basin through Hydrological Modelling Approaches”</p> <p>NHP Sponsored</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	Junior Research Fellow	01	03 Years	<p>Junior Research Fellow (JRF)</p> <p>Essential: Post Graduate Degree in Basic Science OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.) (in Civil Engg./ Agricultural Engg./ Environmental Engg./ Water Resources/ Hydrology/ Remote Sensing and GIS/ Geomatics/ Geoinformatics/ Earth Sciences/ Environmental Sciences) selected through a process described through any one of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scholars who are selected through National Eligibility Tests-CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISC, IISER etc. <p>Desirable: Persons with higher/additional qualifications and execution of research projects would be preferred.</p>	Rs.31,000/- p.m.+HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee
12.	Computer Centre	Resource Person (Junior)	02	Initially for 06 months	<p>Resource Person</p> <p>Essential: B.Tech. (Computer Science)/MCA OR Bachelors Degree (B.Com.,B.Sc.) one year of hardware- Networking Course.</p> <p>Job description: 05 years experience in maintaining and repair of computer hardware related items in the Computer Centre and at user end, to maintain network system and to install software at user end as required.</p>	Rs.20,000/- to Rs.40,000/- depending upon educational qualification and experience. Plus Rs.1500/- p.m. as local conveyance	
13.	<p>“Web-enabled Inventory of Natural Water Springs of Tawi River Catchment of Jammu and Kashmir State of India for Vulnerability Analysis and Developing Adaptive Measures for Sustaining Tawi River”</p> <p>NMHS Sponsored</p> <p>(For Western Himalayan Regional Centre, Jammu)</p>	Junior Research Fellow	01	03 Years	<p>Junior Research Fellow:</p> <p>Essential: Post Graduate Degree in Remote Sensing and GIS/Geology/Environmental Sciences/ Chemistry with NET OR Graduate degree in Professional Course (B.E./B.Tech.) in Agricultural Engineering/ Environmental/ Chemical engineering with GATE Qualification OR Post Graduate Degree in Professional Course (M.E./M.Tech.) in Agricultural Engineering/ Environmental/ Chemical engineering</p> <p>Desirable: Experience of Spring related field survey, working skill on GIS and remotes sensing softwares and also have some basic experience of lab analysis.</p> <p>Note: A non- NET candidate is eligible for the post and would be designated as Junior Project Fellow (JPF) and would be given an emolument of Rs.16000/-+ HRA (as admissible)</p> <p>Nature of Work: Field & laboratory</p>	Rs.25,000/- p.m.+HRA (as applicable)	Dated 24.05.2019 10.00AM at NIH, Roorkee

				investigation. Place of posting shall be at any place of Tawi River catchment of Jammu, Jammu & Kashmir.	
	Project Assistant/ Field Assistant	01	03 Years	<p>Project Assistant/ Field Assistant: Essential: Graduate in any discipline/ diploma in any branch of Engineering Desirable: Knowledge of handling scientific instruments like GPS, pH/EC meter, etc. and experience of conducting survey. Nature of Work: Field Survey of natural water springs in Tawi river catchment, Jammu and posted in any place of Tawi River catchment, Jammu, Jammu & Kashmir.</p>	Rs.10,000/-p.m. (Consolidated)

General conditions:

1. Professionals with requisite qualifications and experience as prescribed would be eligible for the appointment of above posts.
2. Selected candidates would be engaged for a fixed period for providing high quality services to the Institute for attending to specific and time-bound jobs.
3. The appointment would be on Full-time basis and they would not be permitted to take up any other assignment during the period of Consultancy with the NIH.
4. The appointment is purely temporary on co-terminus basis and do not entitle the appointee to any claim implicit or explicit or any NIH post. The appointment can be cancelled at any time by the Institute without assigning any reason.
5. The initial term of appointment and subsequent extension (s) if any, shall be decided on case to case basis depending upon the specific job and the time frame for its completion.
6. The selected candidates shall not be entitled to any allowance such as Dearness Allowance, Residential Telephone, Transport facility, Personal Staff etc.
7. The selected candidates may be provided with the transit accommodation as per prevailing rules of the Institute. The applicable licence fee shall be charged and they will vacate the accommodation on the termination or expiry of the tenure, whichever is earlier.
8. The selection of candidates will be made through Walk-in-Interview. No TA/DA will be paid to the candidate for attending the interview. No TA/DA shall be admissible for joining the appointment on contractual basis. The selected candidate shall be allowed TA/DA for their travel inside the country in connection with the official work.
9. Candidates can directly attend the walk-in-interview on **the prescribed date, time** at NIH along with complete bio-data, passport size photograph and original proof of qualification and experience. They must also bring with them self-attested copies of their certificates. Candidate may report in NIH in one hour before Interview time. After starting of Interview, admission in the same will not be allowed.
10. **Bio-data Format for the posts:** Advt. No., Post applied for, Sub-project/Sub-projects in which the candidate intends to work in the order of preference of Sub-project title, Name of candidate, Father's name, Date of birth, Age, Nationality, Marital status, Category (SC/ST/OBC/PH/Gen), Address for communication, Telephone No., Details of qualifications (High School onwards giving exam passed, year of passing, Name of Board/ University, Subjects, division with percentage of marks, Working experience {Mentioning S. No., Organisation/Institute, Period (from . . . to), Nature of work and remarks}...., Research Paper published if any, Knowledge of software, any other additional information, List of enclosures and Signature of Candidate with date.
11. Maximum Age for Research Associate shall be 35 yrs, for Senior Research Fellow will be 32 yrs and Junior Research Fellow (JRF) and Project Assistant/Field Assistant shall be 28 years, as on the date of interview. Age relaxation of SC/ST/OBC as per Govt. of India rules.
12. No. of posts may increase or decrease depending on the projects.

Note: Candidates before appearing for the Walk-in-Interview shall ensure that they are eligible (in the required field) for the position they intend to apply.

(V.K. Sharma)
Sr. Admn. Officer

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की समिति)
जलविज्ञान भवन रुडकी-247667 (उत्तराखण्ड)

विज्ञापन सूचना

विज्ञापन सं.परियोजना/PDS-NHP-15/2018-राजसं.(प्रशा.)
दिनांक: 07.05.2019

विषय: निम्न परियोजनाओं के अन्तर्गत तात्कालिक साक्षात्कार (Walk-in-Interview) के माध्यम से परियोजना स्टाफ (कॉन्ट्रैक्ट आधार पर) के चयन हेतु विज्ञापन।

क्र.सं.	परियोजना/ उप- परियोजना शीर्षक	पदनाम	पदों की सं.	अवधि	शैक्षिक योग्यता	मासिक वेतन	साक्षात्कार की तिथि समय एवं स्थान
1.	“Innovation Centre for Eco-prudent Wastewater Solutions (IC-ECOWS)” DST Funded	सीनियर प्रोग्रैम ऑफिसर (एस.पी.ओ)	01	5 वर्ष (शुरूआत में एक वर्ष के लिए)	<u>सीनियर प्रोग्रैम ऑफिसर (एस.पी.ओ.):</u> <u>अनिवार्य:</u> इंजी./विज्ञान विषय में डाक्टरेट डिग्री (पी.एच.डी.) अथवा इंजी./ विज्ञान विषय (पर्यावरण इंजी./ पर्यावरण विज्ञान/ रसायन) में पी.जी. डिग्री तथा अपशिष्ट जल के उपचार और प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।	रु.55,000/- प्रतिमाह (consolidated)	दिनांक 23.05.2019 को 11.00 बजे पूर्वान्ह, रा.ज.सं., रुडकी
		रिसर्च एसोसिएट (आर.ए.)	01		<u>रिसर्च एसोसिएट (लेवल-1)</u> <u>अनिवार्य:</u> इंजी./विज्ञान विषय में डाक्टरेट डिग्री (पी.एच.डी.) अथवा पर्यावरण इंजी./ रसायन विषय में पी.जी. डिग्री तथा एससीआई जर्नल/प्रतिष्ठित जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र के साथ 3 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिनके पास उच्च/ अतिरिक्त योग्यता, अनुसंधान अनुभव एवं अपशिष्ट जल प्रबंध के क्षेत्र में पेपर प्रकाशित किया हो।	रु.47,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	
		जूनियर रिसर्च फेलो	01		<u>जूनियर रिसर्च फेलो</u> <u>अनिवार्य:</u> बेसिक साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री(B.E./B.Tech./M.E./M.Tech.) selected through a process described through any one of the following:- a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER ets. पर्यावरण इंजी./ पर्यावरण विज्ञान/ रसायन विषय में <u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास अपशिष्ट जल प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान का अनुभव और पेपर प्रकाशित किया हो।	रु.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	
2.	“Centre for Ecology & Hydrology, (CEH UK)” CEH Sponsored	रिसर्च एसोसिएट (आर.ए.)	01	1 वर्ष	<u>रिसर्च एसोसिएट</u> <u>अनिवार्य:</u> इंजीनियरी/विज्ञान विषय में डाक्टरेट डिग्री (पी.एच.डी.) अथवा जल विज्ञान, मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी, मौसम विज्ञान, कृषि-मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, वन जल विज्ञान, भू-सूचना विज्ञान विषय में एम.ई./एम.टेक तथा अनुसंधान, शिक्षण और डिजाइन और विकास के क्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव तथा विज्ञान प्रशस्ति पत्र (SCI) जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र। <u>वांछनीय:</u> उपरोक्त अनुसंधान क्षेत्रों में कार्य का अनुभव।	रु.47,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	दिनांक 23.05.2019 को 11.00 बजे पूर्वान्ह, रा.ज.सं., रुडकी

3.	<p>“Environmental Flow Assessment for Yamuna River from Hathnikund Barrage to Okhla Barrage”</p> <p>NMCG Funded</p>	<p>रिसर्च एसोसिएट (आर.ए.)</p>	01	12 माह	<p><u>रिसर्च एसोसिएट (लेवल-1)</u> <u>अनिवार्य:</u> सिविल इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जल विज्ञान/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विषय में डाक्टरेट डिग्री (पी.एच.डी.) अथवा सिविल इंजी/ जल संसाधन/ जलविज्ञान/पर्यावरण इंजी. विषय में एम.ई/एम टेक के साथ 3 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव एवं विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूची (एससीआई) जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र। <u>कार्य विवरण:</u> ऊपरी यमुना घाटी के लिए फील्ड सर्वेक्षण और जांच, जलविज्ञान संबंधी और हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का कार्य। <u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास HEC-RAS 2D का उपयोग करके हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग तथा SWAT / HECHMS और का उपयोग करके हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के कार्यों का अनुभव हो।</p>	<p>₹.47,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)</p>	<p>दिनांक 23.05.2019 को 11.00 बजे पूर्वान्ह, रा.ज.सं., रूडकी</p>
4.	<p>“Enhancing Food and Water Security in Arid Region though Improved Understanding of Quantity, Quality and Management of Blue, Green and Grey Water”</p> <p>DST Funded</p>	<p>सीनियर रिसर्च फेलो</p>	01	05 वर्ष	<p><u>सीनियर रिसर्च फेलो</u> <u>अनिवार्य:</u> भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग/ जल संसाधन / जल विज्ञान / पर्यावरण इंजीनियरिंग / कृषि अभियांत्रिकी/ मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी में एम.ई/एम टेक कि डिग्री selected through a process described through any one of the following:- a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc. और दो वर्ष का शोध अनुभव <u>कार्य विवरण:</u> राजस्थान में क्षेत्रीय प्रयोग, जांच, जल संसाधनों के संयोजन के लिए मॉडलिंग वितरण का कार्य। <u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास MODFLOW का उपयोग कर वितरित भूजल मॉडलिंग और GIS पर कार्य का अनुभव।</p>	<p>₹.35,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable) (Only those registered for Ph.D.)</p>	<p>दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, रा.ज.सं., रूडकी</p>
		<p>जूनियर रिसर्च फेलो</p>	01	05 वर्ष	<p><u>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</u> <u>अनिवार्य:</u> भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग /जल संसाधन / जल विज्ञान / पर्यावरण इंजीनियरिंग / कृषि अभियांत्रिकी/ मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी विषय में एम.ई/एम टेक selected through a process described through any one of the following:- a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc. <u>कार्य विवरण:</u> राजस्थान में क्षेत्र प्रयोगों और जांच, जल संसाधनों के संयोजन के लिए मॉडलिंग वितरित का कार्य। <u>वांछनीय</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी</p>	<p>₹.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)</p>	

					जिनके पास MODFLOW का उपयोग कर वितरित भूजल मॉडलिंग और GIS पर कार्य का अनुभव हो।		
5.	“Assessment of seasonal variations in Hydrology and Cryosphere of Upper Ganga Basin using GRACE Data” DST Supported	जूनियर रिसर्च फेलो	01	3 वर्ष	<p><u>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</u> <u>अनिवार्य:</u> सिविल/कृषि अभियांत्रिक/पर्यावरण विज्ञान विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (BE/B.Tech.) में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता अथवा जल संसाधन, जलविज्ञान, सुदूर संवेदन, जी.आई.एस./ जियोइन्फार्मेटिक्स/आई.टी./कृषि इंजी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (ME/M.Tech.) अथवा जलविज्ञान/जल संसाधन/ जियोइन्फार्मेटिक्स/ मौसम विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/भू विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री (M.Sc.) अथवा समकक्ष योग्यता selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p><u>वांछनीय:</u> सुदूर संवेदन और जीआईएस में अनुभव तथा गैस डेटा के प्रबंधन का अनुभव।</p>	रु.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी
6.	NMSHE Sub Project entitled “Glacial Lakes & Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) in Western Himalayan Region” DST Funded	जूनियर रिसर्च फेलो	01	12 जनवरी 2021 तक	<p><u>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</u> <u>अनिवार्य:</u> बेसिक साइंस (गणित /भौतिकी/ भूविज्ञान/ भौमिकि एचआईपी) विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा सिविल/ कृषि/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी/ कृषि इंजीनियरिंग विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.टेक) में स्नातक डिग्री तथा जल संसाधन/ जल विज्ञान/ रिमोट सेंसिंग/ जीआईएस/ जियोइन्फोर्मेटिक्स/ आईटी/ कृषि इंजीनियरिंग विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एम.ई./एम.टेक) में स्नातकोत्तर डिग्री selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE. b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p><u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास संबंधित क्षेत्र में उच्च/अतिरिक्त योग्यता तथा अनुसंधान का अनुभव हो और सम्बन्धित क्षेत्र में पेपर प्रकाशित किये हों।</p>	रु.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी
7.	Integrated Management of Water Resources for Quantity and Quality in Upper Yamuna Basin upto Delhi” CEHM(NHP)	सीनियर रिसर्च फेलो	02	03 वर्ष	<p><u>सीनियर रिसर्च फेलो :</u> <u>अनिवार्य:</u> भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान/पर्यावरण संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजी./ जल संसाधन/ जलविज्ञान/ पर्यावरण इंजी./ कृषि इंजी./ मृदा और जल संरक्षण इंजी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ई./एम टेक) selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including</p>	रु.35,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable) (Only those registered for Ph.D.)	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी

				<p>lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p>और</p> <p>दो वर्ष का शोध का अनुभव</p> <p>कार्य विवरण: फील्ड जॉच, प्रयोगशाला परीक्षण, डाटा प्रोसेसिंग एवं हाइड्रोलॉजिकल मांडलिंग में सहायता प्रदान करना।</p> <p>वाँछनीय: ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास साफटेवयर SWAT, MODFLOW, HYDRUS etc. का उपयोग करते हुये हाइड्रोलॉजिकल मांडलिंग तथा जी.आई.एस.,सांख्यिकी विश्लेषण, जलवायु परिवर्तन प्रभाव का विश्लेषण, जलगुणता विश्लेषण, सैम्पल प्रिपरेशन, फील्ड सर्वे का अनुभव हो ।</p>			
		जूनियर रिसर्च फेलो	01	03 वर्ष	<p>जूनियर रिसर्च फेलो:</p> <p>अनिवार्य: भू-विज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजी./जल संसाधन/जल विज्ञान/पर्यावरण इंजी./ कृषि इंजी./मृदा और जल संरक्षण इंजी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नाकोत्तर डिग्री (एम.ई./एम टेक)-selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p>कार्य विवरण: फील्ड जॉच, प्रयोगशाला परीक्षण, डाटा प्रोसेसिंग एवं हाइड्रोलॉजिकल मांडलिंग में सहायता प्रदान करना।</p> <p>वाँछनीय: ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास जी.आई.एस.,सांख्यिकी विश्लेषण, जलविज्ञानीय संबंधी मांडलिंग, जलगुणता विश्लेषण, सैम्पल प्रिपरेशन का अनुभव हो ।</p>	रु.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रुड़की
8.	<p>“Hydrological Modelling for Evaluation of Return Flow and Irrigation Planning for Optimal Utilization of Water Resource in the Command of Sanjay Sagar Project in Madhya Pradesh (Return Flow-MP)”</p> <p>No: NIH-28_2017_69</p> <p>Under NHP</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	जूनियर रिसर्च फेलो	01	04 वर्ष	<p>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</p> <p>अनिवार्य: बेसिक साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग/कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जलविज्ञान/ सुदूर संवेदन एवं जीआईएस/ जियोसाइन्स/ भूविज्ञान/ भू-सूचना/कम्प्यूटर साइंस/आई.टी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री (बी.ई./बी.टेक) अथवा सिविल इंजीनियरिंग /कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जलविज्ञान/ सुदूर संवेदन एवं जीआईएस/ जियोसाइन्स/ भू-विज्ञान/ भू-सूचना/कम्प्यूटर साइंस/आई.टी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.ई./एम.टेक.) selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p>	रु.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रुड़की

					b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.		
9.	<p>“Development of Decision Tool for Efficient Utilization of Water Resource in Parwati Canal & Dholpur Piped irrigation Project of Rajasthan (Irrigation Management-Rajasthan” No.: RAJ-4_2017_57</p> <p>Under NHP</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	<p>जूनियर रिसर्च फेलो □</p>	01	2.5 वर्ष	<p><u>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</u></p> <p><u>अनिवार्य:</u> बेसिक साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग/कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जलविज्ञान/ सुदूर संवेदन एवं जीआईएस/ जियोसाइन्स/ भूविज्ञान/ भू-सूचना/कम्प्यूटर साइंस/आई.टी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री (बी.ई./बी.टेक) अथवा सिविल इंजीनियरिंग /कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जलविज्ञान/ सुदूर संवेदन एवं जीआईएस/ जियोसाइन्स/ भू-विज्ञान/ भू-सूचना/कम्प्यूटर साइंस/आई.टी. विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री(एम.ई./एम.टेक.) selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p>	<p>₹.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)</p>	<p>दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी</p>
10.	<p>“Impact Assessment of the Upcoming Irrigation Projects and Climate Change on the Droughts and Desertification Scenario for Chambal Basin in Western Madhya Pradesh”</p> <p>NHP Sponsored</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	<p>जूनियर रिसर्च फेलो □</p>	01	3 वर्ष	<p><u>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</u></p> <p><u>अनिवार्य:</u> बेसिक साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग/कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जलविज्ञान/ सुदूर संवेदन और जीआईएस/जियोमेटिक्स/ भू-सूचना/भू-विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ई./एम.टेक) selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p><u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास उच्च/अतिरिक्त योग्यता तथा रिसर्च प्रोजेक्ट्स के निष्पादन की क्षमता हो।</p>	<p>₹.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)</p>	<p>दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी</p>
11.	<p>“Integrated Assessment of the Impacts of Climate Change on the Hydrology of Narmada basin through Hydrological Modelling Approaches”</p> <p>NHP Sponsored</p> <p>(For Central India Hydrology Regional Centre, Bhopal)</p>	<p>जूनियर रिसर्च फेलो □</p>	01	3 वर्ष	<p><u>जूनियर रिसर्च फेलो (जे.आर.एफ.)</u></p> <p><u>अनिवार्य:</u> बेसिक साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग /कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण इंजीनियरिंग/जल संसाधन/जलविज्ञान/ सुदूर संवेदन और जीआईएस/जियोमेटिक्स/भू-सूचना/भू-विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ई./एम.टेक) selected through a process described through any one of the following:-</p> <p>a. Scholars who are selected through National Eligibility Tests- CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant Professorship) and GATE.</p> <p>b. The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and Institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER etc.</p> <p><u>वांछनीय:</u> ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी</p>	<p>₹.31,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)</p>	<p>दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी</p>

					जिनके पास उच्च/अतिरिक्त योग्यता तथा रिसर्च प्रोजेक्ट्स के निष्पादन की क्षमता हो।		
12.	Computer Centre	रिसोर्स परसन (जूनियर)	02	Initially for 06 months	रिसोर्स परसन (जूनियर) <u>अनिवार्य:</u> बी. टेक (कंप्यूटर साइंस)/ एम.सी.ए. अथवा स्नातक डिग्री (बी.काम, बी.एस.सी.) तथा hardware-Networking का एक वर्ष का कोर्स। <u>कार्य विवरण:</u> कंप्यूटर केंद्र और कंप्यूटर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में हार्डवेयर से संबंधित वस्तुओं की मरम्मत में पांच वर्ष का अनुभव, नेटवर्क सिस्टम को बनाए रखने और आवश्यकतानुसार उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर स्थापित करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।	Rs.20,000/- to Rs.40,000/- depending upon educational qualification and experience. Plus Rs.1500/- p.m. as local conveyance	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी
13.	“Web-enabled Inventory of Natural Water Springs of Tawi River Catchment of Jammu and Kashmir State of India for Vulnerability Analysis and Developing Adaptive Measures for Sustaining Tawi River” NMHS Sponsored (For Western Himalayan Regional Centre, Jammu)	जूनियर रिसर्च फेलो	01	03 वर्ष	<u>जूनियर रिसर्च फेलो:</u> <u>अनिवार्य:</u> सुदूर संवेदन और जीआईएस/ भूविज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान/रसायन विज्ञान विषय में NET के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरिंग/पर्यावरण/ रासायनिक इंजीनियरिंग विषय में GATE योग्यता के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री (B.E./B.Tech) अथवा कृषि इंजीनियरिंग/ पर्यावरण/ रासायनिक इंजीनियरिंग विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (M.E./M.Tech.) <u>वांछनीय:</u> जल स्रोत से संबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण का अनुभव, जीआईएस पर काम करने का कौशल और सुदूर संवेदन सॉफ्टवेयर्स और लैब विश्लेषण का कुछ बुनियादी अनुभव भी हो। Note: A non- NET/GATE candidate is eligible for the post and would be designated as Junior Project Fellow (JPF) and would be given an emolument of 16000/-p.m.+ HRA (as admissible) <u>कार्य विवरण:</u> फील्ड और प्रयोगशाला जांच. तैनाती का स्थान जम्मू, जम्मू और कश्मीर के तवी नदी के जलग्रह के किसी भी स्थान पर होगा।	₹. 25,000/- प्रतिमाह + HRA (as applicable)	दिनांक 24.05.2019 को 10.00 बजे पूर्वान्ह, प्रा.ज.सं., रूडकी
		प्रोजेक्ट असिस्टेंट/फील्ड असिस्टेंट	01	03 वर्ष	<u>प्रोजेक्ट असिस्टेंट/फील्ड असिस्टेंट:</u> <u>अनिवार्य:</u> किसी भी विषय में स्नातक/ इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिप्लोमा। <u>वांछनीय:</u> जीपीएस, पीएच/ ईसी मीटर आदि जैसे वैज्ञानिक उपकरणों को संभालने का ज्ञान और सर्वेक्षण का अनुभव। <u>कार्य विवरण:</u> तावी नदी के जलग्रहण क्षेत्र, जम्मू में प्राकृतिक पानी के झरने का फील्ड सर्वेक्षण और तावी नदी जलग्रहण, जम्मू, जम्मू और कश्मीर के किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जायेगा।	Rs.10,000/-p.m. (Consolidated)	

सामान्य शर्तें:

1. उपर्युक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
 2. चुने हुए उम्मीदवार की नियुक्ति संस्थान में एक निर्धारित अवधि के लिए अथवा विशिष्ट समयबद्ध कार्यों के निष्पादन के लिए की जाएगी।
 3. नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी तथा एन. आई. एच. के साथ परामर्शदायी अवधि के दौरान उन्हें कोई अन्य असाइनमेंट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 4. नियुक्ति को-टर्मिनस आधार पर पूर्णतः अस्थायी है तथा इससे नियुक्त किए गए व्यक्ति को एन.आई.एच. में किसी भी पद पर नियुक्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा। संस्थान किसी भी समय बिना कारण बताए उक्त नियुक्ति को रद्द कर सकता है।
 5. नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तथा आगामी विस्तार यदि कोई हो, को कार्य विशेष तथा उसके पूर्ण होने की समय अवधि के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर निश्चित किया जाएगा।
 6. चयनित उम्मीदवार महंगाई भत्ता, आवासीय दूरभाष, परिवहन सुविधा, वैयक्तिक स्टाफ इत्यादि जैसे किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होंगे।
 7. चयनित उम्मीदवार को संस्थान के मौजूदा नियमों के अनुसार आवास सहायता (ट्रांजिट अकामडेशन) उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस शुल्क देय होगा तथा आवास को कार्यकाल के समापन अथवा निरस्त होने पर खाली करना होगा। कार्यालय के कार्यों के संबंध में स्वदेश में की गई यात्रा के लिए टी.ए./डी.ए. प्रदान किया जाएगा।
 8. उम्मीदवार का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए प्रदान नहीं किया जाएगा।
 9. उम्मीदवार अपने बायो-डेटा, पासपोर्ट आकार की फोटो तथा शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी मूल दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तथा समय पर सीधे इंटरव्यू के लिए एन.आई.एच. में उपस्थित हो सकते हैं। उम्मीदवार को अपने प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां भी साथ लानी होंगी। उम्मीदवार को एन.आई.एच. में साक्षात्कार/इंटरव्यू हेतु निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना होगा।
 10. बायो-डेटा का प्रारूप: विज्ञापन सं.पद जिसके लिए आवेदन किया है, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु, राष्ट्रियता, वैवाहिक स्थिति, श्रेणी(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग/सामान्य), पत्राचार का पता, टेलीफोन नं., शैक्षिक योग्यता (परीक्षा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का वर्ष, बोर्ड/युनिवर्सिटी का नाम, अंक प्रतिशत,कार्य का अनुभव, पेपर पब्लिशड यदि है तो, सलंगनक की सूची, उम्मीदवार के हस्ताक्षर एवं दिनांक)
 11. अधिकतम आयु सीनियर प्रोग्राम आफिसर, रिसर्च एसोसिएट के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, सीनियर रिसर्च फेलो(एस.आर.एफ.) के लिए 32 वर्ष और जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) एवं प्रोजेक्ट असिस्टेंट/फील्ड असिस्टेंट के लिए 28 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीएच के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
 12. परियोजनाओं के आधार पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- नोट: अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे जिस पद के लिए उपस्थित हो रहे हैं, उसके लिए वह पात्र (योग्य) हैं।

(वी.के. शर्मा)
वरि.प्रशा.अधिकारी